



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248437
CG-DL-E-31082023-248437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3681]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945

No. 3681]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

का.आ. 3842(अ).—यतः, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के जिला बंगलौर के ग्राम रचनाहल्ली, नागावारा एवं तानिसंद्रा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (जिसमें एलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर भी शामिल है) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1980(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2006 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 22.34 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था। इसके बाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 388(अ) दिनांक 06 मार्च, 2012 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में दो अतिरिक्त क्षेत्रों (1.8600 हेक्टेयर और 5.0917 हेक्टेयर) अधिसूचित एवं एक आंशिक क्षेत्र (3.0980 हेक्टेयर) को अनधिसूचित किया गया था;

और यतः, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.10 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 105 एसपीआई दिनांक 11 मई, 2023 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 2.10 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनधिसूचना के बाद, उक्त क्षेत्र का उपयोग आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में डीटीए इकाई को आवंटन के लिए किया जाएगा;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 2.10 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 24.1017 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	रचनाहल्ली	26(भाग)	0.21
2.		27(भाग)	1.08
3.		35(भाग)	0.17
4.		36(भाग)	0.64
कुल अनधिसूचित क्षेत्रफल			2.10
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल			24.1017

[फा. सं. एफ.2/96/2005-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2023

S.O. 3842(E).—Whereas, M/s. Manyata Promoters Private Limited, a private organisation, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services (including Electronic Hardware and Software) Special Economic Zone at Villages Rachenahalli, Nagavara and Tanisandra, District Bangalore, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 22.34 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1980(E) dated 16th November, 2006. Subsequently, vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 388(E) dated

06th March, 2012, two additional areas (1.8600 hectares and 5.0917 hectares) were notified and one partial area (3.0980 hectares) was de-notified at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, M/s. Manyata Promoters Private Limited has now proposed for de-notification of 2.10 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 105 SPI 2023 dated 11th May, 2023;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 2.10 hectares of the Special Economic Zone. Further, the area after de-notification will be utilized for allocation to DTA unit in IT/ITES sector;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 2.10 hectares, thereby making resultant area as 24.1017 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

Table for De-notification area

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Rachenahalli	26(P)	0.21
2.		27(P)	1.08
3.		35(P)	0.17
4.		36(P)	0.64
Total area for de-notification			2.10
Total notified area of the SEZ after above de-notification			24.1017

[F. No. F.2/96/2005-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.